

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024 — चैत्र 30, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2024

अधिसूचना

क्रमांक 173/1267/3019/21-ब/छ.ग./2024. — राज्य सरकार, गृह विभाग के जावक क्रमांक-266, दिनांक 12-04-2024 तथा कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के पत्र क्रमांक 28/चार/लोसचु/2024/3214 दिनांक 09-04-2024 में प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में, पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3019/1014/21-ब/छ.ग./2024 दिनांक 20-03-2024 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-20 एवं धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा निम्न सूची विनिर्दिष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन-2024 के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव-2024 की अवधि संपन्न होने तक उन्हें विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करती है :-

लोकसभा निर्वाचन 2024, सेक्टर/जोनल अधिकारी हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने हेतु "संशोधित"				
संक्र	सेक्टर का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी हेतु क्षेत्र
1	2	3	4	5
जिला-धमतरी				
1	10- कुकरेल	श्री सी.पी. साहू	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

2	25- फरसियां	श्री प्रतीक दीक्षित	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	10- कोर्वा	श्री सन्हू प्रसाद	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	25- मोगरागहन	श्री एम के नरेटी	कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	26- अरौद	श्री सुमीत कुमार ध्रुव	बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री दीपक कुमार सहारे	उपसंचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	श्री नंद किशोर साहू	श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री भुवन जैन	जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	आरक्षित	श्री भीमराज मेश्राम	सहायक मत्स्य अधिकारी, कार्यालय सहायक संचालक, सत्स्योद्योग, धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	आरक्षित	श्री जय सिंह नेताम	फील्डमैन, रेशम विभाग, बिरेझर केन्द्र जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	आरक्षित	श्री अवधेश कुमार चन्द्राकर	सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	आरक्षित	श्री एन.एस. कुसरे	सहायक संचालक, कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	आरक्षित	श्री संदीप कुमार गोन्नाडे	सहायक परियोजना अधिकारी, आजीविका महाविद्यालय धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	आरक्षित	श्री अरविन्द्र कुमार मिश्रा	सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-कोरबा

1	बेला	श्री अनिल रात्रे	बी.आर.सी. ग्रामीण, वि.ख. कोरबा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	कटवितला, पहंदा, अखरापाली	श्री विरेन्द्र पाल	सहा.शल्यज्ञ, पशु चिकित्सक करतला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	जमनीपाली, सलिहाभांठा	श्रीमती रेणु प्रकाश	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	कोरबा रामनगर, मुडापार अमरैयापारा	श्री बी.एस.भण्डारी	सहा. संचालक रेशम विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	बसंतपुर, कोलिहामुडा	श्री संजीव कुमार राठौर	सहा. प्रा. शा. कॉलेज दीपक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	जुराली, कटघोरा	श्री स्वयं अग्रवाल	उप अभियंता जल संसाधन कटघोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	तेलसरा सिंघाली	श्री विनोद कुमार	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग क.-1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	गेवरा	श्री इन्द्रभूषण टेकाम	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कटघोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	दीपका	श्री विद्यानंद मधुकर	उप अभियंता नगर, पंचायत पाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	मलगांव	श्री अजय पैकरा	उप अभियंता जन संसाधन विभाग कटघोरा क.-1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	मुढाली	श्री अरविन्द्र कुमार दुबे	फिल्ड आफिसर, रेशम विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	चन्द्रौटी	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	प्रभारी प्राचार्य, शा.उ.मा. विद्यालय पसान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	केराकछार	श्री टीकाराम कश्यप	सहा. प्रा. शा. महाविद्यालय	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	हरनमुडी	श्री दीपक साहू	उप अभियंता जनपद पंचायत पाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	खोडरी(तु.), मैनगढ़ी	श्री डी.के.नामदेव	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.लमना,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-राजनांदगांव

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री इतर सिंह मांडवी	सहायक अभियंता, परि.क्रिया इकाई कमांक-1 प्र.ग्रा.स.यो. राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	श्री बसंत धृतलहरे	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बस्तर

1	9-रतेंगा	श्रीमती रोमा राव	शाखा प्रबंधक, राज्य भंडार गृह निगम, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	2-जैबेल	श्री नील प्रकाश	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, विद्युत यांत्रिक जल संसाधन जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	8-मूली	श्री लोकेश कुमार देवांगन	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	11-मनधोता	श्री देवेश सिंह चौहान	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लो. यांत्रिकी, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	4-आसना	श्री आशीष गोसाई	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	9-आड़ावाल	श्रीमती सत्या कश्यप	जिला पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	11-जगदलपुर	श्री धनलक्ष्मी बैद्य	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	14-जगदलपुर 7	श्री विकास रामटेके	वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय अनुसंधान, केन्द्र कुमहरावण्ड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	18-सरगीपाल	श्री राहुल देवांगन	उप अभियंता, कार्यपालन टी. डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10	25—दरभा	श्री चर्चित चांडक	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	10—पोटानगर	श्री अजय टेम्भुरने	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग(वि/या)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	11—केशलूर	श्री संजराम चंदेल	सहायक अभियंता(वि/या) उप खण्ड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	26—कोड़ेनार	श्री घनश्याम राठौर	खाद्य अधिकारी, खाद्य विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	29—छिन्दवाड़ा	श्री रालेश ध्रुव	जिला विपणन अधिकारी, जिला विपणन कार्यालय, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	30—केलाउर	श्री सी.के.ठाकूर	कार्यपालन अभियंता, हाउसिंग बोर्ड जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री अमर सिंह	उप अभियंता, आयुक्त नगर निगम कार्यालय, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	श्री हिमांशु सोनकेशरिया	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री कुंवर सिंह नाग	उप अभियंता, कार्यपालन अनु. अधिकारी विद्युत यांत्रिकी एफ. ओ.एड. एम.जल संसाधन विभाग, अनु. जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	आरक्षित	श्री नरसेया बुरका	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन भानपुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	आरक्षित	श्री देवलाल दुग्गा	उप वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	आरक्षित	श्री केयूर वैद्या	उप अभियंता, हाउसिंग बोर्ड, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	आरक्षित	श्री धनुष नेताम	मुख्य कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बस्तर संभाग क-2 उप संभाग, लोहण्डीगुडा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	आरक्षित	श्री के.एल. वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग बस्तर, संभाग क-2 उप संभाग, लोहण्डीगुडा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	आरक्षित	श्री भरतलाल बांदे	उप संचालक, कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-कोण्डागांव

1	16-कोण्डागांव-3	श्री दामोदर सिंह उर्वशा	कार्यापालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	-----------------	-------------------------	--	------------------------

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री डी. एन. पात्र	श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग जिला कोण्डागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	श्री अवनी कुमार बिसवाल	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री डी.पी.टाण्डे	उप संचालक कृषि, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-गरियाबंद

1	3-राजिम	श्री ए.के.सारस्वत	जिला शिक्षा अधिकारी जिला-गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
1	3-लोहरसी	श्री शिवकुमार पटेल	सहायक संचालक, रेशम विभाग जिला-गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-सरगुजा

1	22-मनीपुर	श्री बसंत खाखा	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	14-करांकी	श्री राजेन्द्र राजवाड़े	प्रबंधक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	23-पलका-2	श्री मनीष कुमार रवि	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	8-दत्ताकालोनी	श्री रत्नेश कंवर	उपअभियंता, नगरपालिक निगम, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

5	11-लुरैना	श्री लोकेश साव	सहायक अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	26-राधापुर-1	श्री एस. के. पैकरा	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	28-लिचिरमा	श्री विवेक सिंह राठौर	उपअभियंता, जनपद पंचायत अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री अगस्तुस लकड़ा	अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	डॉ. विकास कुमार जायसवाल	पशु चिकित्सक, कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री हेमंत यादव	सहायक संचालक, जिला शिक्षा कार्यालय, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	आरक्षित	श्री सुजीत कुमार गुप्ता	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	आरक्षित	श्री प्रवीण कुमार साहू	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संयुक्त शिक्षा कार्यालय, सरगुजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	आरक्षित	श्री नीलम किण्डो	उपअभियंता, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	आरक्षित	श्री आदित्य साहू	उप अभियंता, जलसंसाधन स.क्र. 1, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	आरक्षित	श्री नरेन्द्र कुमार भगत	सहायक अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.ई.क्र. 2, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	आरक्षित	श्री शैलेश तिकी	उपअभियंता, जलसंसाधन स.क्र. 1, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	आरक्षित	श्री आलोक सिन्हा	उपअभियंता, पीएमजीएसवाय अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	आरक्षित	श्री कमल डिंगरस्कर	सहायक प्राध्यापक, शा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय कमलेश्वरपुर, मैनपाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

1	18-बरतीकला	श्री शिवकुमार प्रसाद	उप संचालक, कृषि, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	04-महादेवपुर	श्री डी.एन.मिश्रा	जिला शिक्षा अधिकारी जिला-बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	18-रामानुजगंज	श्री एसं के मिंज	कार्य.अभि.जन संसाधन, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	40-झलरिया	श्री भेषश कुमार गुप्ता	कृषि विस्तार अधि0, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

5	01-करमडीहा	श्री दयानंद पटेल	उप अभियंता जनपद पंचायत वाड्डफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	22-शंकरगढ़	श्री जी.एस. सिदार	कार्यापालन अभियंता, पीएनजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	36-कुसमी	श्री बी. के जैन	सहायक अभियंता, अनु. अधि. उप संभाग, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	47-बसकेपी	श्री महेन्द्र कुमार पैकरा	उप अभियंता, नगर पंचायत कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री उत्तम शंकर दिवाकर क12 बलरामपुर	उप अभियंता, PMGSY, क 12 बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	---------	--	-------------------------------------	---------------------------

जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

1	12 दंतेवाड़ा	श्री हरिशचंद्र नेताम	उप अभियंता, कार्यालय अभियंता जल संसाधन विभाग दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	13 पोन्दुम	श्री कीर्ति कौशिक	खाद्य अधिकारी, खाद्य विभाग, दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	14 मेटापाल	श्री खिलेश्वर सिंह शांडिल्य	विपणन अधिकारी, जिला विपणन दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	32 समेली	श्री दुलार दास बर्मन	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	35 मुगेर	श्री जी. के. सोनवानी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	36 पोटाली	श्री एम.के.कुरैटी	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कुआकोण्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	आरक्षित	श्री आर. के. ठाकुर	प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण सेवा दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	श्री राधे राम	सहायक अभियंता, लोक निर्माण गीदम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री मनीष नेताम	श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-कबीरधाम

1	पुटपुटा	श्री लिलेश्वर प्रसाद साहू	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	कुकदूर	श्री कौशल किशोर शर्मा	सहा. अभियंता जल संसाधन विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	बाघामुड़ा	श्री हरिशंकर कैवर्त	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	मोहगांव	श्री नन्द कुमार गायकवाड़	सहायक अभियंता, क्रेडा, कबीरधाम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	कोलेगांव	श्री नरेन्द्र कुमार चंद्राकर	कृषि विकास अधिकारी, पंडरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	इंदौरी	श्री वेद प्रकाश सेन	उप अभियन्ता, वि.यां. नलकूप एवं गेट, उप संभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	सिंघनगढ	श्री जयप्रकाश	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग स-लोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	मड़मड़ा	श्री बी आर पटेल	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बोड़ला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	खड़ौदाकला	श्री एस एल पन्ड्रो	विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	बरबसपुर	श्री राकेश प्रसाद	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	कवर्धा	श्री गोपाल कृष्णा शर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	कवर्धा	श्री सत्येन्द्र चंद्रवंशी	प्राचार्य शास. आईटीआई तारो कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	धमकी	श्री दीपक कुमार	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	रेंगाखारकला	श्री सुरेश कुमार हिरकने	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी बोडला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही

1	कछार	श्री एन. एस. कंवर	उप अभियंता, लोक स्वा.यां. मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	मरवाही	वेता अग्रवाल	खाद्य अधिकारी, गौरेला.पेन्द्रा. मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	गोरखपुर	श्री शुभांशु साहू	उप अभियंता, जलसंसाधन विभाग मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	गिरारी	श्री विश्वम्भर सिंह वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन पेण्डारोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

5	आमाडांड	श्री अमर सिंह	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	जोगीसार	श्री अंकित ताम्रकार	उप अभियंता, जलसंसाधन विभाग पेण्ड्रारोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	कोडगार	श्री आर. एस. कवर	अनु अधि, गृह नि. वि. जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	डांडजमड़ी कला	श्री परमार सिंह कवर	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रारोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	सारबहरा	श्री आलोक कृष्णन	सहायक अभियंता प्रमंरासयो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	गौरेला-1	श्रीमती सीमा डेविड	जिला खेल अधिकारी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	गौरेला-2	डा. प्रीति सिंह	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पेण्ड्रा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	पेण्ड्रा	श्रीमती दीपा सोम रावटे	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	खोडरी	श्री नकुल करें	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन पेण्ड्रारोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

1	सालडेवारा-1	श्री डेविड कुमार	प्रशिक्षण अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	भुरभुरी-11	श्री टोपलाल वर्मा	सहायक प्राध्यापक, पं. देवीदास चौबे शास. महाविद्यालय गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	अतरिया-13	श्री रविन्द्र कुमार मेहरा	वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी, सहायक संचालक उद्यान, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	6-टोलागांव	श्री लोकेश वर्मा	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बिलासपुर

1	बाल मुकुद स्कूल भारतीय नगर	श्री आर. एस. पैकरा	कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान पी जी बी टी कालेज तारबाहरा बिलासपुर	श्री लोकश शर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तखतपुर कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	भारत माता प्राइमरी स्कूल वायरलेस कालोनी बिलासपुर	श्री जे. पी. सूर्यवंशी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय संयुक्त संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	एमसाही	श्री एम. के. सोम	कार्यालय अभियंता छत्तीसगढ़ गृह विर्माण मंडल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	गतौरा	श्री भानुप्रताप सिंह	उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
रिजर्व टीम				
1	आरक्षित	श्री आशिर्वाद कुमार चाणक्य	विधि अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	श्री शशिकुमार	साहायक भौमिकी विद, क्षेत्रीय प्रमुख संचनालय भौमिकी तथा खनिकर्म बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	श्री वैभव मिश्रा	सहायक यंत्री एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	आरक्षित	श्री मिलिन्द द्विवेदी	बाल विकास परियोजना जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

5	आरक्षित	श्री सुमित कुमार महोबिया	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर बिलासपुर संभाग क्रमांक 02 छ.ग.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
जिला-जांजगीर-चाम्पा				
1	13-चारापारा	डॉ गुलशन डनसेना	आयुर्वेद अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	4-पाली	श्री गणेश चक्रधारी	नापतौल निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	8-नैला	डॉ सतीश समदशी	आयुर्वेद अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	18-सेमरा	श्री भुनेश्वर प्रसाद साहू	प्राचार्य डाईट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	20-गिद्धा	श्री समीर मिश्रा	श्रम पदाधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	4-कोसमंदा	श्री रवि कुमार गौतम	सहा. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	7-दारंग	श्री कमल देवांगन	सहायक अभियंता जल संसाधन चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	12-लोहर्सी	श्री अश्वनी भारद्वाज	जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर. चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	14-कुक्दा	श्री के. के सरल	अनु. अधि. लोक. निर्माण विभाग, चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
रिजर्व टीम				
1	आरक्षित	डॉ मनीष खरे	विशेषज्ञ आयुर्वेद चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	आरक्षित	डॉ. शैलेश थवाईत	आयुर्वेद अधिकारी अकलतरा पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आरक्षित	डॉ. भागीराथी खाण्डे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	आरक्षित	श्री पी. के. नायडू	प्राचार्य शास ITI बम्हनीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	आरक्षित	डॉ. आर. बी. चौरसिया	अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़				
1	1-कोसीर	श्री बी.एल.खरे	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. गोड़म	संबंधित लोकसभा

				क्षेत्र
2	27—लोधिया	श्री माधव कुमार भोय	सहायक प्राध्यापक, डॉ शकाजीत नायक महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	28—देवगांव	श्री उदय सिंह मालाकर	शास0उ0मा0वि0 सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	30—बिलाईगढ़	श्री तिरीथ लाल सारथी	सहायक प्राध्यापक, डॉ शकाजीत नायक महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	31—बरमकेला	डॉ. चंद्रशेखर पटेल	सहायक प्राध्यापक, डॉ शकाजीत नायक महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	13—धनगांव	श्री कमलेश्वर प्रसाद साहू	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 जोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	18—रायकोना	श्री एल.पी.पटेल	प्राचार्य, शास0उ0मा0वि0 धनसीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	06— साल्हेओना	श्री एस.एल.भगत	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला— दुर्ग

1	14 तर्रीघाट	डॉ अम्बरीश त्रिपाठी	सहा.प्रा. डी.यु.एस. शा. महा. विद्यालय मचांदुर दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	16 डीडाभाठा (रानीतराई)	सिमोन एक्का	मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, जिला दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	11	प्रवीण तिवारी,	उप अभियंता, मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण सड़क योजना, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	2	श्री संजय सिंह	श्रम अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, दुर्ग,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	2A	हृदेश शर्मा	मार्केटिंग ऑफिसर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	3	ए चंदन निर्मल	उप अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	7	के एल ताराम	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ मंडल दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	21	राजेश कुमार शर्मा	सहायक जिला आबकारी अधिकारी,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	1	रवेन्द्र कुमार दशहरा	व्याख्याता (वर्ग -1) आदिवासी विकास ,दुर्ग,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10	11	प्रमोद शर्मा उप अभियंता	कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	16	भुपेन्द्र सिन्हा	उप अभियंता, आदिमजाती कल्याण विभाग दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	12	संदीप यादव	सहायक अभियंता प्र.ग्रा.स. योजना दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	1.मेडेसरा	सूर्यभान सिंह	संयुक्त संचालक नगर एवम ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	21. सोमनी	मीनाक्षी अग्रवाल	उप अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
रिज़र्व				
1		पुष्पा राजेन्द्रन	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, दुर्ग 9425247028	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2		रितेंद्र गजपाल	गुणवत्ता पर्यवेक्षक (उप अभियंता) छ ग राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो नि वि दुर्ग (छ ग) 9406204179	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3		देवव्रत मिश्रा	कार्यपालन अभियन्ता क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण बोर्ड भिलाई 32 बंगला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4		जगदीश सिंह सिकरवार	प्राचार्य वर्ग-02 आई.टी.आई पाटन दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5		तारिका दमले	उपअभियंता, सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6		अलका साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7		शीतल जैन	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8		डॉ. सैय्यद सलीम अकील	सहायक प्राध्यापक. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9		डॉ प्रेरणा कठाने	सहायक प्राध्यापक. शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10		डॉ दुर्गेश दत्त झा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं दुर्ग,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11		समर्थ प्रकाश सक्सेना	सहायक प्रध्यापक छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12		रमाकांत गंजेश्वर	सहायक प्रध्यापक छ.ग. स्वामी.विवेकानन्द, तक.वि.वि.दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13		के.ए. साहिना अनीश	उप अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14		ज्योति प्रकाश पात्रा	सहायक प्रध्यापक छ.ग. स्वामि.विवेकानन्द, तक.वि.वि.दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15		कल्पना पोयाम	उप अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धमधा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16		राजेश कुमार डुम्भरे	वरिष्ठ मानचित्रकार नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17		कृष्ण नारायण ताम्रकार	उप अभियन्ता, नगर पालिका परिषद जामुल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18		तुलेश्वर गजपाल	गुणवत्ता पर्यवेक्षक (उप अभियन्ता) छ ग राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो नि वि दुर्ग (छ ग)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19		अनुपम चंद्राकर	सहायक अभियन्ता प्र.ग्रा.स. योजना दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

1	01-बलौदा	श्री भोला शंकर	उप अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	04-मटिया	श्री बी०पी०पालसोतकर	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	08 खान (पार्ट 3)	श्री नितिन नायक	वनपाल (देवपुर), वन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	04-पनगांव	श्री डी.पी.साहू	उप अभियन्ता (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा), (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	7	श्री एस. गेन्दले	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	20 धुरबांधा	श्री मोहित कुमार वर्मा,	उप अभियन्ता, नगर निर्माण, उप संभाग, भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	02-खैदा	श्री रविशंकर तिवारी	उप निरीक्षक, कृषि उपज मण्डी कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	22-जर्वे	श्री जितेन्द्र बहादुर पटेल	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पलारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

9	40—कोसमसरा	श्री राकेश कुमार उराव	मतस्य निरीक्षक, मतस्य विभाग, बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	15 पुराना वि.ख. शि. अ.	श्री अवधेश उपाध्याय	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग, बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

**लोकसभा निर्वाचन 2024, उड़नदस्ता/ स्थैतिक निगरानी दल हेतु
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने हेतु
"संशोधित "**

स क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी हेतु क्षेत्र
1	2	3	4

कोरिया

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री कल्पनाथ पैकरा	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटनरी हास्पिटल सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री संजय कुमार जायसवाल	व्याख्याता, शा.उ.मा.वि.पोंडी बचरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री तिवारी लाल बेक	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटनरी हास्पिटल बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री कलेशवर सिंह	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्यालय वरिष्ठ, कृषि विस्तार अधिकारी बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री विनय त्रिपाठी	सहायक संचालक, कार्या.उद्यान बैकुंठपुर,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री शिव नारायण सिंह	सहायक संचालक रेशम, रेशम विभाग बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री कृष्ण कुमार यादव	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या.वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री एस.एम.दिवेदी	सहायक संचालक मतस्य, मतस्य विभाग बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री विजय कुमार उइके	सहायक आयुक्त सहकारिता, सहकारिता विभाग बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री राजेश कुमार भारती	सहायक संचालक कृषि, कृषि विभाग बैकुंठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री शिव कुमार	शिक्षक, मा.शा. गोयनी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री सुलभ साय पैकरा	उद्यान विकास अधिकारी, कार्यालय उद्यान विकास अधिकारी सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री विरेन्द्र कुमार साहू	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या.व.कृ.वि.अ. सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि विभाग बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह	प्रधान पाठक. मा.शा. छुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री रामजीत राम	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या. अनु.कृषि अधिकारी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री मनमोहन कुमार	प्रयोगशाला तकनीशियन, शा.रामानुजप्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महा.बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री मुरलीधर झाप	ग्रा.कृ.वि.अधि. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री लक्ष्मण सिंह	ग्रा.कृ.वि.अ.कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री राजाराम	शिक्षक, मा.शा. आनंदपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	--------------	------------------------	------------------------

जिला-बस्तर**उड़दस्ता प्रभारी**

1	श्री डोमन लाल ठाकुर	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	---------------------	--	------------------------

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री भूपेन्द्र हेडाउ	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-बस्तर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अनिल देवांगन	उप वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र दरभा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री ओ.पी. मेश्राम	विकास विस्तार अधिकारी, जगदलपुद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री संजय कुमार जोशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनु. अधिकारी कृषि तोकापाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	रामनाथ मौर्य	कृषि विस्तार अधिकारी, लोहण्डीगुड़ा कार्या. अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

6	श्री अमित बिस्वास	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि तोकापाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री बसंत जोशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री दयालू राम कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रायकोट विकासखण्ड-तोकापाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री प्रशांत वर्मा	उप अभियंता, कार्यालय अधिक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बस्तर मण्डल, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	प्रवीण कुमार सोनी	उप अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, लॉ स्वा. यां. विभाग, वि/यां, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	किशोर कृष्णा धराई	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, रा. रातमार्ग सं, जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-कोण्डागांव

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री भुपेन्द्र उईके	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री भानुशंकर यदु	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री राम कुमार ठाकुर	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री हेम लाल पुजारी	वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री सावन कुमार भोयर	वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री शामाराम नेताम	वनपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री शशिकांत दुबे	उप वन क्षेत्रपाल, सहायक परिक्षे, अधिकारी, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री पीलाराम दीवान	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सहदेव बघेल	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री चरण नेताम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव (नारंगी) वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-गरियाबंद**उड़दस्ता प्रभारी**

1	श्री पोखर साहू	सहा.आंत.लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत छुरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री राजकुमार धुवा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, समाज कल्याण विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री हेमंत कुमार ध्रुव	ग्रा.कृ.वि.अधि., कृषि विभाग मैनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कार्तिक राम यादव	सहा. आ. लेखा परिक्षण अधिकारी, जनपद पंचायत छुरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-सरगुजा**उड़दस्ता प्रभारी**

1	श्री उमेश तिवारी	नायब तहसीलदार उप तहसील कुन्नी लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री धीरज गुप्ता	प्र०आर० 65 चौकी कुन्नी लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री सिया राम वर्मा	वनपाल लखनपुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री संजय कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक रा०नि०म० लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री शिवशंकर राम	प्र०आर० 93 थाना लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री महेन्द्र राम	वनपाल लखनपुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री धर्मजीत मिंज	राजस्व निरीक्षक रा०नि०म० दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री सोहरईया	प्र०आर० 447 थाना दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री कुन्तल पटेल	वनपाल लुण्डा परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री आकाश गौतम	नायब तहसीलदार तहसील उदयपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री सोनसाय भगत	प्र०आर० 17 चौकी कुन्नी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री रीझन राम	वनपाल लखनपुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री किशुन सिंह	राजस्व निरीक्षक रा०नि०म० लटोरी लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री घनश्याम यादव	प्र०आर० 200 चौकी केदमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री चन्द्र कुमार चौबे	वनपाल अम्बिकापुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री आशीष गुहा	नजूल निरीक्षक अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री भानु प्रताप सिंह	प्र०आर० 706 रक्षित केन्द्र अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्रीमती अंकिता पटेल	नायब तहसीलदार दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री जागेश्वर राम	वनपाल मैनपाट परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री पुनीराम पैकरा	राजस्व निरीक्षक रा०नि०म० सीतापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री रंजीत लकड़ा	प्र०आर० 958 थाना सीतापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री रामू खलखो	वनपाल सीतापुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री शिवपूजन तिवारी	राजस्व निरीक्षक रा०नि०म० बोदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री चंद्रभूषण तिवारी	प्र०आर० 929 चौकी रघुनाथपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री महेश तिग्गा	वनपाल सीतापुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री नरेश मौर्य	राजस्व निरीक्षक रा०नि०म० मैनपाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री मनोज कुमार	प्र०आर० 492 थाना मणिपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री अशोक प्रताप सिंह	वनपाल मैनपाट परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री संतोष बघेल	कृषि विकास अधिकारी कार्यालय सहायक मिट्टी परिक्षण अधिकारी गंगपुरखुर्द अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री भैयालाल तिकी	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री राजेश चौधरी	कृषि विकास अधिकारी कार्यालय सहायक मिट्टी परिक्षण अधिकारी गंगपुरखुर्द अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री पाण्डो बिशी	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री देवनारायण यादव	सहायक उपनिरीक्षक थाना धौरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री प्रभात चौबे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री नितिन जॉन	कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री अदिप ललित खलखो	फील्ड आफिसर रेशम विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री दिनेश कुमार टोप्पो	उप वनक्षेपाल सरगुजा वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री गणपत लाल सिदार	सर्वेयर कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री शिव भगत	वनरक्षक सरगुजा वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री नवीन प्रताप सिंह	वनरक्षक सरगुजा वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री विनोद कुमार सिंह	वनपाल अम्बिकापुर परिक्षेत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री प्रभात पैकरा	वनरक्षक परिक्षेत्र बतौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री रमेश कुमार तिवारी	वनरक्षक परिक्षेत्र मैनपाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री राकेश कुमार राजवाड़े	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री दिवाकर तिरोले	वनरक्षक सरगुजा वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री सुशील एक्का	वनपाल सरगुजा वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री अविनाश तिग्गा	वनरक्षक वनपरिक्षेत्र सीतापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री ननका राम	प्रकार 150 थाना मणिपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री अविनाश किण्डो	वनरक्षक परिक्षेत्र सीतापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री दयाशंकर सोनवानी	वनपाल सरगुजा वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज**उड़दस्ता प्रभारी**

1	श्री उमाशंकर सिंह	प्रभारी राजनिरिक्षक, रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री श्रवन कुमार भगत	आरक्षक-437 थाना सनावल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री जगरात सिंह	नायबतहसीलदार, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री विमलेश सिंह	प्रभारी राजनिरिक्षक, विजयनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री धर्मपाल सिंह	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, बगरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री बुटन यादव	मण्डल संयोजक, रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	श्री कृष्ण सिंह	प्रभारी राज0 निरीक्षक, रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री लाल बहादुर जायसवाल	वनपाल, रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री रामकेश आयाम	आरक्षक-450 थाना राघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री जलज कुमार पटेल	मण्डल संयोजक, वाड्डफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री श्यामलाल सिंह	आरक्षक-672 रक्षित केन्द्र बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री संजीत यादव	आरक्षक-1127 थाना-त्रिकुण्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री संदीप कुमार	आरक्षक-865 थाना-रामाचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री जुगेश कुमार जायसवाल	आरक्षक-1120 चौकी-वाड्डफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री राकेश कुमार यादव	ग्रा.कृ.वि.अधि., रामानुजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री जगदीश पाल	वनपाल बरदर बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री दिलीप जाव	पटवारी, भनौरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री सुनिल कुमार गुप्ता	मण्डल संयोजक कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री फुलचंद एक्का	राजस्व निरीक्षक, सामरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री अंकित गुप्ता	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री रमेश राम	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री रुदन बघेल	ग्रा0 कृषि विस्तार अधिकारी, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री राकेश कुमार जायसवाल	मण्डल संयोजक, राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री सुनिल कुमार अग्रवाल	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, बरियों	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री विजय प्रसाद गुप्ता	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री रामधन आर्मे	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री प्रभारी कुजूर	वनपाल , चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्रीमती सावित्री दुर्गम	उप वन क्षेत्रपाल वनमण्डल दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री दिलीप कुमार साहू	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री चोवाराम साहू	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री ऋषिकेश पाढ़ी	उप वनक्षेत्रपाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	सुरेद्र कुमार पाल	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री विरेन्द्र कुमार नाग	वनपाल परिक्षेत्र बचेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री जागेश्वर मंडावी	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री हरिचन्द्र बघेल	वनपाल परिक्षेत्र बचेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अशोक नेताम	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अच्छे लाल पटेल	वनपाल परिक्षेत्र गीदम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री पी. लोकेश पुनेम	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री कविनाथ सेठिया	वनपाल परिक्षेत्र दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री विकास कुमार जोशी	ग्रा. कृषि विस्ता. अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री हुंगाराम कश्यप	उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री राधेलाल कुंजाम	उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र दंतेपाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-कबीरधाम

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री रविन्द्र कुमार कुर्रे	अतिरिक्त तहसीलदार, राजस्व विभाग पिपरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी	तहसीलदार पिपरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री शशांक शेखर शुक्ला	तहसीलदार बोड़ला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री विवेक गोहिया	तहसीलदार सज्जोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही

उड़दस्ता प्रभारी, स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री शेषनारायण जयसवाल	तहसीलदार, मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अंकित जैन	उप अभियंता	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री सुनील कुमार ध्रुव	प्रभारी तहसीलदार, पेन्द्रारोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री अमरेन्द्र कुमार कुशवाहा	ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कौशिक कुमार वर्मा	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री नीरज वारे	उप अभियंता, जलसंसाधन संभाग छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	----------------	------------------------------------	------------------------

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री संदीप कुमार भास्कर	ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	राधेश्याम वर्मा	उप अभियंता, कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण भ./स खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री बुलेश कुमार वर्मा	ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री टेकेश कुमार साहू	उप अभियंता, कार्यापालन अभियंता जल संसाधन संभाग छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बिलासपुर

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री राजीव बाजपेई	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, जिला योजना एवम सांख्यिकी बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री भौला राम पटेल	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय उप संचालक जिला योजना एवम सांख्यिकी बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	श्री खिलेश्वर प्रसाद साहू	कार्यालय अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता मिनी माता हसदेव परियोजना बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
रिजर्व टीम			
1	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तिवारी	सहायक आयुक्त कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री धर्मेन्द्र साय	सयुक्त संचालक क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री आलोक कुमार जायसवाल	सहायक आयुक्त कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री संपत्त राम मौर्य	मुख्य विश्लेषक, कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री विनोद कुमार उरमलिया	कार्यालय अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री पी. एल. नायक	उपवन क्षेत्रपाल, रतनपुर रेंज बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कैलाश मार्को	उप अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा जिला बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री राजकिशोर तिवारी	उप अभियंता ग्रामिण यांत्रिकी सेवा संभाग बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री किरण सोनी	सहायक अभियंता नगर पालिका नि. बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री गोपाल अग्रवाल	उप अभियंता, नगर पालिका निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अनिल वर्मा	कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड बिल्हा कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	श्री नरेन्द्र दुबे	उप अभियंता, नगर पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री खेमराज शर्मा	ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि जिला बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री उमेश कौशिक	सहायक विकास विस्तार अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री राजेश राठौर	सहायक विकास विस्तार अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री रवि नवरंगे	उप अभियंता नगर पालिका निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री कोमल सिंह मार्को	कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री विरेन्द्र कुमार भास्कर	उप वन क्षेत्रपाल रतनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री राघवेन्द्र सिंह	उप अभियंता नगर पालिका निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री गौरीशकर कोरी	सहायक अभियंता कार्या. वरिष्ठ भू-जलविद् संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री गजानंद पात्रे	उप अभियंता, लो. नि. विभाग संभाग क्रमांक-02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री पीसी बर्मन	ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड मस्तूरी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री आशिष कुमार जायसवाल	विकास विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक संचालक पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री दीपक कुमार भारद्वाज	सहायक विकास विस्तार अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी, जिला बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री यशवंत सिंह जांगड़े	विकास विस्तार अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री दीपक कौशिक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री पुष्पेन्द्र दीवान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री लक्ष्मीनारायण कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक मिट्टी परिक्षण अधिकारी मंडी परिसर बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री गजेन्द्र कुमार	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री यशवंत कुमार कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री नितिन घोरे	सहाकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10	श्री जितेन्द्र सिंह पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
जिला-जांजगीर-चाम्पा			
उड़दस्ता प्रभारी			
1	श्री अश्वनी कुमार सिदार	करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अभिषेक सिंह चंदेल	उप अभियंता ह.न.ज.प्र.सं.चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री योगेश कुमार राठौर	कृषि विकास अधिकारी , बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री संजीव कुमार सिंह	मत्स्य निरीक्षक, सहायक संचालक मत्स्य जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री अमरनाथ राठौर	सहायक विस्तार अधिकारी, उप पंजीयन सह सह सेवा जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री विभोर यादव	नायबतहसीलदार, चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री देवचंद बघेल	सहायक विस्तार अधिकारी, उप पंजीयक सह सेवाएं जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री रामकुमार धुरे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मुदा परिक्षण जाजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास	उप अभियंता उप संचालक मत्स्य जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अंकित सिंह राजपुत	नायब तहसीलदार, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री संजय बरेठ	नायब तहसीलदार, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राम अवतार चौबे	वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक उप पजीयक सह सेवाएं जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
रिजर्व टीम			
1	श्री हिरेन्द्र छंडन	मंडी निरीक्षक, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री दशरथ लाल साहू	कुषि विकास अधिकारी, बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री एस. के. सोनी	कृ.वि.अ.पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

4	श्री वीरनारायण कुर्रे	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन सर्वेक्षण एवं बरौज निर्माण संभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री गोबरुराम भतरा	सहा.वि.विस्तार अधि, उप पंजीयक सह. सेवाएं जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री जयचंद कुमार टंडन	सहा.वि.विस्तार अधि, उप पंजीयक सह. सेवाएं जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री रामरतन भारद्वाज	मंडी निरीक्षक, बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री जसपाल धिरही	उप अभियंता, जनपद पंचायत बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री राम रत्न सिंह राज	उप मंडी निरीक्षक, अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री भरत लाला साहू	सहा. वि. अधिकारी कार्यालय जनदप पंचायत बम्हनीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री सुशील विश्वकर्मा	खाद्य निरीक्षक जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री राजेन्द्र कुमार गेंदले	सह. अभियंता, कार्या. उप. पंजीयक सह. सेवा, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री एम.एल. भारती	उप अभियंता, कार्या. ग्रा.या.सेवा जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अखिलेश लहरें	उप अभियंता, अनु. अधि. अकलतरा शाखा नहर उप संभाग लोहर्सी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री राजेश कुमार श्रीवास	उप अभियंता, अनु. अधि. अकलतरा शाखा नहर उप संभाग लोहर्सी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
रिजर्व टीम			
1	श्री प्रतीक पाण्डेय	उप अभियंता, नगर पंचायत खरौद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
जिला— सारंगढ़—बिलाईगढ़			
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री उत्तम पटेल	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

2	श्री गोपीनाथ प्रधान	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 देवगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री वनमाली बरिहा	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 नंदीगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री लम्बोदर पटेल	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 पोरथ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री मकरध्वज चौहान	व्याख्याता, शास0हाई स्कूल अमेरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अरविंद होता	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री राम साहू	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 गाताडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री मोहन लाल साहू	व्याख्याता, शास0उ0मा0वि0 धोबनी, बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला- दुर्ग

उड़दस्ता प्रभारी

1	रवि गुप्ता,	उप अभियन्ता, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	लिनेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय रिसाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आर राम नायडू	श्रम निरीक्षक औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	चंद्रशेखर सोनी	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी IR-MECH Deptt. भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	लीलाधर ढीमर	उप अभियंता मुख्यमं	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	शेख वाईज	उप अभियन्ता, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मंडल, दुर्ग 826895954	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	पुरेन्द्र कोडसेवाडा	राजस्व निरीक्षक दुर्ग 903947496	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	बृजलाल मौर्य	समन्वयक (एस.एन.सी.) भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	रमेश साहू	उप अभियंता आर.आर.एम.एन.यू. दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	अरूपेश कुमार सेन	वरिष्ठ स्टाफ सहायक, जनरल स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	चैत राम साहू	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी IR-SZ-1 Deptt. भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	संजय कुमार यादव	वरिष्ठ तकनीशियन जीएडी, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13	हरीश बैतुले	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी इंडस्ट्रीयल रिलेशन डिपार्टमेंट (P-MILLS ZONE-1) भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	ज्ञानेंद्र कुमार पांडेय	मास्टर ऑपरेटिव M.S.G.-TSD Dep't. भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	नारायण प्रसाद लोवांशी	निरीक्षक एस्टेट, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	अजय कुमार शर्मा	अनुभाग अधिकारी जनरल स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	सतीश मुदलियार	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी इंडस्ट्रीयल रिलेशन डिपार्टमेंट भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	मिथलेश पार्कर	निरीक्षक नापतौल संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	रोमन कुमार सिन्हा	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	आलोक ताम्रकार,	वरिष्ठ ऑपरेटर एम.एस.जी- टीएसडी डिपार्टमेंट भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	रमेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक तहसीलदार अहिवारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	डा नितिन गढ़े,	सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुधन विभाग दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	हरीश कुमार घृतलहरे	सहायक प्राध्यापक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	पंकज कुमार स्वर्णकार	सहायक प्राध्यापक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	विशाल गेडाम	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री कवासरी आर. गणेशन,	सेक्शन अधिकारी सामान्य स्थापना भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	अविनाश चैहान,	नायब तहसीलदार दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	कारण यादव	उप अभियंता नगर पालिक निगम, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	भूपेन्द्र यादव,	राज्य कर निरीक्षक, वृत्त	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	केवीएसआर नागाराजू	स्थापना अधिकारी जनरल स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	रेवती रमण शर्मा,	उप अभियंता नगर पालिका परिषद अहिवारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	संजीव सक्सेना,	वरिष्ठ तकनीशियन जीएडी, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	एवीएचआरके मूर्ति	अनुभाग अधिकारी जनरल स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	प्रवीण शर्मा	आई.आर. विभाग, भिलाई स्टील प्लांट,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

9	राकेश कुमार जैन	वरिष्ठ स्टाक सत्यापनकर्ता फिन एन अकाउंट्स, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	शुभम मिश्रा	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता वि/यो लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री राजेश कुमार देवांगन,	सहायक प्राध्यापक शासकीय महा. पेन्ड्रावन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	मोहम्मद अनीस नजीर	अनुभाग अधिकारी जनरल स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

जिला-बलोदाबाजार-भाटापारा

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री भगवान सिंह पैकरा	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, बलोदाबाजार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री के. के. सिंह साहू	Sub. Engineer लोक निर्माण विभाग बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री खिलावन प्रसाद पूरेना	वन परिक्षेत्र अधिकारी कसडोल उत्पादन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री दामोदर वर्मा	नाप-तौल निरीक्षक, बलोदाबाजार पलारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री राम बृजेश प्रजापति	ड्रग इंस्पेक्टर कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री रूपेश्वर प्रसाद कुर्रे	स्थल सहायक, कार्य अभि. जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री भूषण कुमार धनगढ़	क्षेत्र सहायक कार्यालय जिला विपणन अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	शिव कुमार चन्द्राकर	अनुविभागीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण सभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अमृत लाल मनहर अमिन	कार्यपालन अभि. जल संसाधन क.02 बलोदाबाजार(लवन)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री संतोश कुमार टंडन	सहा. वि.विस्तार अधि.ज. प. पलारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री रामसाय मनहरे	सहा. आ. लेखा परिक्षण अधिकारी, जनपद पंचायत बलोदाबाजार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री बाल कृष्ण राठौर	ग्रामिण उद्यान विस्तार अधिकारी, भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13	श्री किशोर कुमार ठाकुर	ड्रग इंस्पेक्टर सिमगा, भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	लोकेश्वर राम साहू	प्रशिक्षण अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हथबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	अजय कुमार अनंत	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	सुरेद्र कुमार कौशिक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व.कृ. वि. अ. भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री सुनिल खाण्डेकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री उदयवीर ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पलारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री सीताराम कुम्भकार	सहायक मानचित्रकार, कार्य. अभि. जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री दीपक सेनी	कृषि उपज मंडी कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री नन्द कुमार वर्मा	कार्या. अभि. जल संसाधन विभाग क. 2 बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	हरीश कुमार वर्मा, अमीन	अमीन जल संसाधन विभाग संभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री मोहन लाल पैकरा	सहा.आंत.लेखा परिक्षण अधिकारी, कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री धनसाय रात्रे	BFO नवागांव, सोनाखान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	कुमार सिंह पात्रे	सहायक मानचित्रकार, कार्य. अभि. जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी	सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पालीका ब.बा.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	राधेश्याम सेन	अमीन जल संसाधन विभाग संभाग कसडोल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	ज्ञानचंद वर्मा	तकनीकी शिक्षा, शा. औद्यो, प्रशि. संस्था भाटापारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	----------------	---	------------------------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.